

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

EARTHSTAHL & ALLOYS LIMI

Our Company was originally incorporated as "Earthstahl & Alloys Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 09, 2009 bearing registration No. 021487 issued by Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and ClN No. U27310CT2009PTC021487. Subsequently our Company was converted into a public limited company vide special resolution passed by the shareholders at the Annual General Meeting held on August 27, 2022 and the name of our Company was changed from "Earthstahl & Alloys Private Limited" to "Earthstahl & Alloys Limited" vide fresh Certificate of Incorporation granted to our Company consequent upon conversion into public limited company dated September 21, 2022 by the Registrar of Companies, Chhattisgarh bearing Corporate Identification Number U27310CT2009PLC021487. For further details please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 111 o

> Registered Office: Merlin Jayshree Vihar, Mohani 5 B, Pandri Tarai, Mandi Gate, Raipur, Chhattisgarh- 492001 India. Contact Person: Rahul Kumar Sinha, Company Secretary & Compliance Officer Tel No: +91-8120009626; E-mail: secretarial@earthstahl.com Website: www.earthstahl.com CIN: U27310CT2009PLC021487

OUR PROMOTERS: Ravi Thakurdasji Laddha, Rajesh Somani, Prawin Somani and Padam Kumar Jain **BASIS OF ALLOTMENT**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 32,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH OF EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 30 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO RS. 1296.00 LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 1,68,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARES AGGREGATING RS. 67.20 LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 30,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING RS 1228.80 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE CONSTITUTES 26.47% AND 25.09% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: RS. 40 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF RS.10 EACH THE ISSUE PRICE IS 4 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors: i Our company defaulted in servicing its debt obligations during FY 15-16 and FY 16-17 and such debt was settled as at March 31, 2018. Due to delay in commissioning and stabilisation of foundry for manufacturing ductile iron pipe fittings and fall in the steel prices the company had shut down its operations from March 2015 till March 2018. If such circumstances re-occur disrupting the operational and financial margin, the company may close its operations again if not financially feasible. ii. The Merchant Banker associated with the Issue has handled 21 public issue in the past three years out of which 1 Issues closed below the Issue Price on Listing date

ill. Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters is iv. The Price/Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2022 for the company at the upper end of the Price Band is 4.83 v. Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2022, 2021 and, 2020 is 51.25%

Sr No	Name of Promoter	Average cost of acquisition per equity share
1	Ravi Thakurdasji Laddha	Rs. 7.79
2	Rajesh Somani	Rs. 10.92
3	Prawin Somani	Rs. 11.24
1	Dadom Kumar Jain	Do 7.06

BID/ ISSUE PERIOD BID/ ISSUE OPENED ON: FRIDAY, JANUARY 27, 2023 BID/ ISSUE CLOSED ON: TUESDAY, JANUARY 31, 2023 PROPOSED LISTING: FEBRUARY 08, 2023*

The Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") wherein not more than 30% of the Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"). Further, not less than 35% of the Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue was made available for allocation to RIIs in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, subject to valid Bids having been received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts were blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. For details, see "Issue Procedure" on page 215 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or about February 08, 2023* *Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.

The Issue received 75,541 Applications for 72,27,03,000 Equity Shares (before technical rejections) resulting in 223.06 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before technical rejections):

Detail of the Applications Received:

Sr. No.	Category	No. of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (in Rs.)			
1	Retail-Individual Investors	68,888	20,66,64,000	10,77,000	191.89	8,26,60,11,000			
2	Non-Institutional Investors	6,631	48,31,83,000	10,77,000	448.64	19,32,69,84,000			
3	Market Maker	1	1,68,000	1,68,000	1.00	67,20,000			
4	Qualified Institutional Buyers	21	3,26,88,000	9,18,000	35.61	1,30,75,20,000			
	Total	75,541	72,27,03,000	32,40,000	223.06	28,90,72,35,000			
Final	Final Demand: A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:								

	Sr.No.	BIO Price	Bids Quantity	% of lotal	Cumulative lotal	% Cumulative lotal
	1	38	120	4,89,000	76,08,54,000	0.06
	2	39	18	54,000	76,03,65,000	0.01
	3	40	39,472	61,58,40,000	76,03,11,000	80.94
	4	CUT OFF	48,157	14,44,71,000	14,44,71,000	18.98
١Г		TOTAL	87,767	76,08,54,000		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE Limited on February 03, 2023.

1) Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 188.04 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 10,77,000 Equity Shares to 359 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
Retail Individual Investors	67,506	100.00	20,25,18,000	100.00	3,000	1:188	10,77,000

2) Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 440.78 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 10,77,000 Equity Shares to 336 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under (Sample Basis):

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
6000	2444	37.48	14664000	3.09	3000	1:222	33000	1113000	1	0.02	1113000	0.23	3000	1:1	3000
9000	492	7.55	4428000	0.93	3000	1:164	9000	1125000	2	0.03	2250000	0.47	3000	1:1	6000
12000	367	5.63	4404000	0.93	3000	3:367	9000	1134000	21	0.32	23814000	5.02	3000	6:7	54000
15000	264	4.05	3960000	0.83	3000	1:88	9000	1137000	1	0.02	1137000	0.24	3000	1:1	3000
27000	514	7.88	13878000	2.92	3000	5:257	30000	1191000	1	0.02	1191000	0.25	3000	1:1	3000
30000	225	3.45	6750000	1.42	3000	1:45	15000	1230000	1	0.02	1230000	0.26	3000	1:1	3000
33000	105	1.61	3465000	0.73	3000	1:35	9000	1245000	1	0.02	1245000	0.26	3000	1:1	3000
36000	77	1.18	2772000	0.58	3000	2:77	6000	1248000	1	0.02	1248000	0.26	3000	1:1	3000
66000	19	0.29	1254000	0.26	3000	1:19	3000	1404000	1	0.02	1404000	0.30	3000	1:1	3000
69000	20	0.31	1380000	0.29	3000	1:20	3000	1875000	1	0.02	1875000	0.39	3000	1:1	3000
72000	22	0.34	1584000	0.33	3000	1:22	3000	1950000	1	0.02	1950000	0.41	3000	1:1	3000
75000	58	0.89	4350000	0.92	3000	3:58	9000	1956000	1	0.02	1956000	0.41	3000	1:1	3000
876000	1	0.02	876000	0.18	3000	1:1	3000	2001000	1	0.02	2001000	0.42	6000	1:1	6000
885000	1	0.02	885000	0.19	3000	1:1	3000	2499000	1	0.02	2499000	0.53	6000	1:1	6000
906000	1	0.02	906000	0.19	3000	1:1	3000	2874000	1	0.02	2874000	0.61	6000	1:1	6000
915000	1	0.02	915000	0.19	3000	1:1	3000	3072000	4	0.06	12288000	2.59	6000	1:1	24000
3) Allotmen	3) Allotment to OIRs (After Technical Rejections)						30	000 additional				3,000	1:4	3000	

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 35.61 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 9,18,000 Equity Shares, which were allotted to

21 successful Applicants 87,000 87.000 4.02.000 QIB 3.42.000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on February 03, 2022 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Ltd and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of he investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before February 03, 2022. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Begistrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 02, 2023 filed with the Registrar of Companies, Chhattisgarh ("RoC").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for Bidder DP ID. Client ID. PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediar and payment details at the address given below

Bigshare Services Pvt. Ltd.

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, India.

Tel. No.: +91 22 6263 8200; Website: www.bigshareonline.com; Email: ipo@bigshareonline.com CIN: U99999MH1994PTC076534; Contact Person: Mr. Babu Rapheal; SEBI Regn. No.: MB/INR000001385

On behalf of Board of Directors Earthstahl & Alloys Limited

Place: Raipur Date: February 04, 2023 THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS

Rahul Kumar Sinha Company Secretary & Compliance Officer

PROSPECTS OF EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED. Disclaimer: Earthstahl & Alloys Limited has filed the Prospectus with the RoC on February 02, 2023 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SME Platform of BSE at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.bsesme.com and on the websites of the same part of t

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Aditya Birla Sun Life **Mutual Fund**



Date: February 05, 2023

CONSOLIDATED

Place: Mumbai

Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mills, Senapati Bapai Marg. Fliphinstone Road, Mumbai - 400 013, Tel : 4356 8000, Fax: 4356 8110/8111, CIN: I 65991MH1994PI C080811

Record Date for Distribution

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Trustees of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund have approved Wednesday, February 08, 2023*, as the Record Date for declaration of distribution under the Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) option in the following scheme, subject to availability of distributable surplus on the Record Date:

Name of the Scheme	Plan/Option	Quantum of Distribution per unit# on face value of Rs. 10/- per unit	NAV as on February 03, 2023 (Rs.)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TZ (90 days) (A Close ended Income Scheme. A relatively low interest rate risk and moderate credit risk)	Direct Plan – Payout of IDCW	The entire distributable surplus at the time of maturity^ shall be distributed.	10.1621

The NAV of the scheme, pursuant to pay out of distribution would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

#As reduced by the amount of applicable statutory levy. *or the immediately following Business Day if that day is a non-business day. ^Maturity of the said scheme is February 08, 2023.

All unitholders whose names appear in the Register of Unitholders / Beneficial owners under the IDCW option of the said scheme as at the close of business hours on the Record Date shall be eligible to receive the distribution so declared.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Sd/-

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025; Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. In Lakhs)

STANDALONE

		10	0 .,,	-	00110021271122			
SI. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2022	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2022	Quarter ended Dec 31, 2022	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2022	
1	Total Income from Operations	28,055.86	33,062.31	102,193.77	45,788.91	32,784.74	109,771.79	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	1,269.42	2,293.33	4,356.35	1,740.16	1,074.50	4,811.15	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	1,269.42	2,293.33	4,356.35	1,740.16	1,074.50	4,904.21	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	959.73	1,750.95	3,296.78	1,373.65	716.55	3,741.55	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	965.73	1,756.11	3,360.80	1,378.65	721.87	3,788.65	
6	Equity Share Capital of Face Value Rs.10/- each	2,274.26	2,137.81	2,122.49	2,274.26	2,137.81	2,122.49	
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2022			28,679.71			29,107.31	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic	4.48	8.24	15.93	6.47	3.37	18.08	
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Diluted	4.17	7.65	15.00	6.00	3.12	17.03	

Note:-

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited

Vikas Gupta

Director

Place: Greater Noida, U.P. Dated: 04th Feb, 2023









नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसका व्यवसाय का एक स्थान 10, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1 (यहां इसे बाद में "बैंक" कहा गया है) का अधिकृत

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) वे अधीन तथा प्रतिभूत हित (प्रेवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचनाएं दिनांकित **10 जुलाई**. 2020 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों श्री राजेन्द्र शंकर सिंघल/श्री कनिक राजेन्द्र सिंघल/श्रीमती कमलेश राजेन्द्र सिंघल/मैसर्स शंकर सन्स, आवास फ्लैट नं. 102 एवं 102ए एस-459, ब्लॉक एस, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-110048 (कर्जदारगण) को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर रु. 13,661,431.76 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख इकसढ हजार चार सौ इकतीस एवं पैसे छिहत्तर मात्र) की बकाया रुकम के साथ दिनांक 10 जुलाई, 2020 से भुगतान की वास्तविक तारीख तक आगे के ब्याज

कर्जदार द्वारा उक्त रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को बैंक के पास गिरवी पर रखी गई यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है।

अब, एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित प्रक्रियाओं तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में बोलियाँ आमंत्रण के माध्यम से उक्त सम्पत्ति की 10, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1 में 24 फरवरी, 2023 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 1 बजे के बीच सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी: उक्त सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 12,843,157.50/- (रुपये एक करोड़ अट्टाइस लाख तैंतालीस हजार एक सौ सनतावन एवं पैसे पचास मात्र) है। बयाना राशि जमा रु. 1,284,315.75/- (रुपये बारह लाख चौरासी हजार तीन सौ पंद्रह एवं पैसे पचहत्तर मात्र) होगी।

बोली आमंत्रण द्वारा सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रियाएं तथा नियम एवं शर्ते :

- सम्पत्ति का निरीक्षण 17 फरवरी, 2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक किया जा सकता है।
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऋण खाता सं. 50673963 के पक्ष में बयाना राशि जमा के रूप में रु. 1,284,315.75/- (रुपये बारह लाख चौरासी हजार तीन सौ पंद्रह एवं पैसे पचहत्तर मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ मुहरबंद लिफाफे में बोलियाँ अधोहरताक्षरी के कार्यालय में जमा करनी होगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- बयाना राशि जमा के साथ बोली जमा करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी, 2023 को अपराहन 2 बजे तक अथवा उससे पहले है।
- बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को अपनी पहचान के साक्ष्य तथा आवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की प्रतिलिपि तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी होगी।
- नीलामी की तारीख को प्राप्त सभी बोलियाँ खोली जाएंगी तथा आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य वाले उच्चतम बोलीदाता की बोली बैंक द्वारा स्वीकार की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी। तथापि, नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने वाले बोलीदाता के पास अपनी बोली को न्यूनतम रु. 500000/- (पांच लाख मात्र) की रकम द्वारा बढ़ाने का अधिकार भी होगा तथा सर्वोच्च मूल्य प्रस्तावित किए जाने पर बैंक के पास उसे स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। तत्पश्चात, बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टी किए जाने पर क्रेता को अधोहस्ताक्षरी के पास बयाना राशि जमा के समायोजन के उपरांत बिक्री मूल्य की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि तत्काल जमा करनी होगी। क्रेता को अधोहस्ताक्षरी के पास उक्त सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टी के दिन से पंद्रह दिनों के अंदर अथवा पार्टियों द्वारा लिखित रूप से सहमत विस्तारित अवधि तक क्रय मुल्य की शेष राशि का भूगतान करना होगा। ऊपर उल्लेखित समय के अंदर भूगतान करने में विफल रहने पर, बैंक के पास जमा बयाना राशि की रकम जब्त करने तथा सम्पत्ति को पुनः नीलाम करने का अधिकार सुरक्षित है। सम्पत्ति से संबंधित सभी दावों अथवा बाद में की जाने वाली बिक्री से प्राप्त किसी भी रकम के हिस्से पर असफल क्रेता के पास कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- क्रेता द्वारा सभी तरह के भुगतान **स्टेंडर्ड चार्टर्ड बेंक ऋण खाता सं. 50673963** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा करना होगा।
- सम्पूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, बैंक द्वारा क्रेता के पक्ष में बिक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा सौंप दिया जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टी किए जाने की तारीख से यहां नीचे अनुसूची में उल्लेखित संबंधित अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण जोखिम सभी पहलुओं में यानी गुम होने अथवा आग से नष्ट होने अथवा चोरी होने अथवा अन्य किसी भी दुर्घटना के कारण तथा अन्य किसी भी प्रकार का जोखिम एकल रूप से क्रेंता पर होगा। किसी भी कारणवर चाहे जो भी हो क्रेता के पास बिक्री निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा।
- बयाना राशि के एवज में जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा।
- 10. सभी उद्देश्यों के लिए उक्त सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है के आधार पर" तथा "जैसे है जो है के आधार पर" की जाएगी। बैंक के अधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर अन्य कोई भी ऋण भार नहीं है।
- स्टैम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, हस्तांतरण शुल्क से संबंधित सभी व्यय तथा ऊपर उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में अन्य कोई भी शुल्क का भुगतान क्रेता को करना होगा।
- अधिकृत अधिकारी सर्वोच्च प्रस्ताव अथवा किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलयों
- स्वयं बोलीदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को नीलामी बिक्री प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ऊपरोक्त नामित कर्जदार द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की निर्धारित तारीख से पहले किसी भी समय सभी लागत, शुल्कों एवं बैंक द्वारा व्यय किए गए खर्चों के साथ सभी बकाया रकम चुकता कर दिए जाने पर अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी तथा बैंक के प्रति बिना किसी देनदारियों/दावे के प्रत्याशित बोलीदाताओं से प्राप्त
- यह विज्ञप्ति प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन ऊपर उल्लेखित कर्जदार श्री राजेन्द्र शंकर सिंघल/श्री कनिक राजेन्द्र सिंघल/ श्रीमती कमलेश राजेन्द्र सिंघल/मैसर्स शंकर सन्स, आवास फ्लैट नं. 102 एवं 102ए, एस-459, ब्लॉक एस, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-110048 के लिए भी एक सूचना है 16. एसए नं. 72/2021 डीआरटी, दिल्ली के समक्ष लंबित है।

सम्पत्ति का विवरण

नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार दो फ्लैट नम्बरों वाली एक समेकित सम्पत्तिः

सम्पत्ति सं. एस-459, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-110048 के भूतल पर फ्लैट नं. 102 एवं 102ए का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा

और अधिक विवरण के लिए कृपया इनसे सम्पर्क करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में श्री सरबदीप सिंह थापर से 011 49861235/09810834383

दिनांक : 06.02.2023 स्थान ः नई दिल्ली

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

(Rs. In Lakhs)



PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025; Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2022

			STANDALO	NE	CONSOLIDATED			
SI. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2022	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2022	Quarter ended Dec 31, 2022	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2022	
1	Total Income from Operations	28,055.86	33,062.31	102,193.77	45,788.91	32,784.74	109,771.79	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	1,269.42	2,293.33	4,356.35	1,740.16	1,074.50	4,811.15	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	1,269.42	2,293.33	4,356.35	1,740.16	1,074.50	4,904.21	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	959.73	1,750.95	3,296.78	1,373.65	716.55	3,741.55	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	965.73	1,756.11	3,360.80	1,378.65	721.87	3,788.65	
6	Equity Share Capital of Face Value Rs.10/- each	2,274.26	2,137.81	2,122.49	2,274.26	2,137.81	2,122.49	
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2022			28,679.71			29,107.31	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic	4.48	8.24	15.93	6.47	3.37	18.08	
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Diluted	4.17	7.65	15.00	6.00	3.12	17.03	

Note:-

Place: Greater Noida, U.P.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited







सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, <mark>मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत</mark> कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋष् चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (02.10.2021 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 11.02.2023

Delhi-Paschim Vihar: MAL-2426, MUL-4378, 4559, 4638, 4693, 4704, 4707, Delhi-Nangloi: MAL-2213, MUL-2955, 5164, 5573, 5982, 6587, 6618, 6642, 6655, 6681, 6691, 6806, 6853, 6854, 6909, 6936, 6945, 7015, 7030, 7113, 7157, 7183, 7248, 7329, 7368, MWS-1850, 3262, **Paschim Vihar Jwalaheri Rd**: MAL-3582, 3748, MUL-7617, 8354, 8356, 8365, 8411, 8469, 8518, 8594, 8602, 8637, 8660, 8699, 8700, 8712, 8729, 8737, 8756, 8786, 8817, 8830, 8834, 8904, Peeragarhi: MAL-2464, 2929, 2946, MDL-1785, MUL-6543, 6935, 7008, 7011, 7087, 7280, 7314, 7319, 7326, 7365, 7368, 7370, 7428, 7458, 7473, 7512, 7514, 7552, 7566, 7583 7585, 7593, 7596, 7602, 7700, 7825, 7873, Paschim Vihar Bhera Enclave: MAL-2265, 2308, MUL-3909, 3954, 4523, 4676, 4681, 4694, 4714, 4731, 4732, 4733, 4740, 4777, 4793, 4805, 4846, 4872, 4876, **Rajindra Park Nangloi**: MAL-2969, 3330, MDL-2698, MUL-3775, 4297, 5030, 5122, 6616, 6683, 6721, 6756, 6788, 6794, 6873, 6875, 6934, 6937, 6954, 6978, 7062, 7089, 7114, 7117. 7142, 7170, 7185, 7240, 7290, 7291, 7309, 7364, 7427, MWS-21, 5312, 5741, Nangloi Adhyapak Nagar: MDL-1055, MUL-3858, 4201, 4214, 4229, 4273, 4304, 4312, 4319, 4323, 4431, 4559, MWS-1483, **Syed Nangloi**: MSL-7467, MUL-5261, 5640, 6664, 6935 7281, 7288, 7329, 7340, 7367, 7424, 7475, 7484, 7527, 7535, 7620, 7663, Nihal Vihar: MAL-2319, MDL-742, 1685, MUL-3673 3980, 6175, 7876, 8449, 9769, 9837, 9863, 9892, 9924, 9926, 10008, 10078, 10079, 10093, 10117, 10216, 10236, 10273, 10386 10429, 10431, 10436, 10464, 10468, 10678

द्वितिय नीलामी की तिथिः 13.02.2023, Auction Centre: Property No: A5/235, Ground Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि. कपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मेजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का मुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोट्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण कुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (02.10.2021 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणो कें अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 14.02.2023 Ghaziabad Vaishali: BLS-11, MAL-2566, MDL-2151, MUL-3213, 7012, 7146, 7284, 7341, 7351, 7363, 7365, 7367, 7369, 7372. 7374, 7380, 7383, 7402, 7408, 7419, 7431, 7446, 7448, 7459, 7464, 7514, 7573, 7575, 7590, MWS-4047, 6248, WBS-18, Ambedkar Road: MUL-5226, 5326, 5483, 5514, 5568, 5711, 5724, 5740, 5743, 5748, 5749, 5750, 5751, 5757, 5769, 5774, 5791, 5829, 5830, Ghaziabad-G.T. Road: MAL-2835, 2871, MUL-4201, 8770, 9067, 9071, 9112, 9135, 9136, 9137, 9140, 9155, 9158, 9163, 9166, 9184, 9214, 9215, 9241, 9296, 9319, 9331, 9342, 9359, **Vasundhara**: MAL-1021, MDL-1506, 1574, MHP-337, MUL-7141, 7462, 7702, 7706, 7965, 7981, 7999, 8002, 8014, 8018, 8026, 8035, 8049, 8055, 8089, 8109, 8173, **Sahibabad-Shalimar Garden Ext-I**l: MDL-2681, 2791, 2817, 2915, MUL-13841, 14164, 14325, 14513, 14562, 14603, 14645, 14659, 14705, 14768, 14784, 14795, 14812 14817, Raj Nagar District Centre: MUL-5319, 6859, 7819, 7823, 8177, 8180, 8317, 8340, 8353, 8357, 8368, 8416, 8437, 8459 8464, 8476, 8492, 8494, 8527, 8579, Sahibabad-Rajinder Nagar: MAL-3138, 3276, 3318, MDL-1617, MUL-10668, 10673, 10690, Shasti Nagar: BLS-1, MAL-3486, MDL-1941, MUL-9817, 10570, 10618, 10798, 10873, 10967, 11015, 11042, 11080, 11096, 11127. 11128, 11159, 11165, 11170, 11177, 11192, 11221, 11243, 11248, 11335, Vaishali C Block: MUL-7697, 8338, 8349, 8353, 8482, 8536 8545, 8591, 8611, Modi Nagar-(UP): BLS-37, 38, 52, 56, 100, MUL-14650, RGL-974, 1385, 3574, 4381, 4681, 4813, 4817, 4829 4861, 4913, 4915, 4922, 4942, 4975, 4999, 5024, 5025, 5036, 5068, 5081, 5192, 5225, 5284, 5292, 5305, 5438, 5450, 5472, **Rakesh Marg:** MAL-1645, MUL-4459, 5855, 6164, 6291, 6329, 6330, 6368, 6481, 6572, 6652, 6654, 6657, 6678, 6686, 6718, 6767, 6786, 6795, **Ghaziabad-Lajpat Nagar**: MAL-1866, 2688, 2820, 2822, 2831, MDL-1370, 1544, 1621, MUL-9226, 11055, 11071, 11096 11155, 11156, 11158, 11161, 11170, 11194, 11226, 11291, 11304, 11315, 11331, 11347, 11351, 11357, 11373, 11420, 11463, 11543 11567, 11640, 11683, 11749, 11751, 11755, 11811, 11890, 11904, 11951, 11970, 11994, **Sanjay Nagar**: MUL-4001, 8151, 9640, 9887, 10019, RGL-161, 561, 595, 642, 688, 690, 2139, 2145, 2146, 2181, 2217, 2281, 2284, 2287, 2414, 2538, Vijay Nagar: MAL-1436, 4109, 5216, 5612, MDL-3282, 3399, 3411, 3616, 3709, MUL-10021, 10703, 17506, 20205, 21445, 21779, 22085, 22155, 22594, 22790, 22838, 22848, 22853, 22861, 22903, 22907, 22948, 22975, 23009, 23029, 23031, 23037, 23038, 23053, 23199, 23222 23224, 23288, 23295, 23414, 23509, 23512, 23561, 23582, Pilakhuwa-(UP): BLS-15, MAL-3698, 3730, MDL-2052, MUL-10579 11214, 11874, RGL-1770, 3838, 4930, 4948, 4995, 5106, 5442, 5649, 5684, 5717, 5757, 5891, 5936, 5992, 6049, 6070, 6118, 6156, 6166, 6167, 6170, 6176, 6177, 6193, 6215, 6313, 6367, 6380, 6419, 6459, 6465, 6535, 6542, 6547, 6621, 6707, 6709, 6751, 6970, Navyug Market: MAL-3195, MDL-1506, MUL-6305, 8948, 9183, 9217, 9549, 9806, 9902, 9915, 9924, 9931, 9940, 9967, 9968, 9976, 9982, 9991, 10025, 10032, 10039, 10066, 10091, 10124, 10166, 10211, 10217, Vasundhra-Reliable City Mall: BLS-2, MAL-1496 MDL-846, 864, MUL-6694, 7411, 7428, 7520, 7543, 7553, 7639, 7648, 7670, 7710, 7717, 7746, 7754, 7848, 7851, Kaushambi MUL-1615, 5054, 5206, 5283, 5328, 5353, 5383, 5398, 5404, 5418, 5435, 5457, 5463, 5495, Muradnagar-(UP): BLS-67, MDL-1069. 1099, 1106, 1173, 1255, 1340, MUL-3440, 7232, 7692, RGL-615, 1798, 1868, 2566, 2644, 2704, 2770, 2807, 2809, 2835, 2840, 2915, 2928, 2929, 2930, 2934, 2994, 3050, 3063, 3133, 3171, 3174, 3255, 3302, 3382, 3394, 3416, 3431, 3510, 3527, 3547, 3563, 3566, 3571, 3572, 3586, 3588, 3593, 3603, 3615, 3630, 3641, 3662, 3720, 3726, 3729, 3730, 3734, 3735, 3793, 3808, 3811, 3849, 3969 3971, 3982, 3990, 4022, 4042, WBS-2

द्वितिय नीलामी की तिथिः 15.02.2023, Auction Centre: Second Floor, Plot No. 20, Darshan Tower, Sector-4, Vaishali Ghaziabad, UP

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलार्म दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर—॥, नई दिल्ली — 110024
नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का मुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा

सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।



लालपुर शाखा, गांव- ततारपुर पोस्ट बाबूगढ़, हापुड़ जिला-हापुड़-245101

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों / गारन्टरों व सूचित किया जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सूचना की तिथि **24.01.2023** बैंक के रेकॉर्ड के अनुसार 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सूचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना प्रकाशित की गई है।

यह सूचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसा आपके खाते में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक को चकाने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग ु खाते में वसूली हेतु कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से हस्तांतरण के लिए उद्धरण या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पूर्व लिखित स्वीकृती के बिना संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्वाग्रह के जारी कर रहा है एवं बैंक डी.आर.टी. अथवा अन्य किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकता है।

कर्जदार / गारन्टर के नाम एवं पता	बधक / दृष्टिबधक संपात्त का विवरण	बकाया साश (रुपये में)
श्री साबिर पुत्र इदरीश (उधारकती), डब्ल्यू—11/1138 मोहल्ला कोटला सादात, मस्जिद के पास, हापुड़—245101 श्रीमती भूरी पत्नी साबिर (सह—उधारकती), डब्ल्यू—11/1138 मोहल्ला कोटला सादात, मस्जिद के पास, हापुड़—245101 श्री फरहीम पुत्र हबीब (गारंटर), 1190 सदकपुरी, हापुड़—245101	मोहल्ला कोटला सादात, मस्जिद के पास, हापुड़, जिला— हापुड़, यू.पी.—245101 में स्थित, क्षेत्रफल 54.366 वर्ग मी. जिला हापुड़ में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्री साबिर	भविष्य का ब्याज साथ में बैंक द्वारा सभी लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि सहित
मांग सूचना की तारीख : 24-01-2023 एनपीए की तिथि : 30-12-2021	पुत्र इदरीश के नाम पर है। चौहदी : पूरब में — नन्हे का मकान, पश्चिम में — अन्य की संपत्ति, उत्तर में — रोड, दक्षिण में — ताल	
दिनांक : 06-02-2023 स्थान : हापड	प्राधिकत आ	धेकारी. बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India

दिनांक : 06-02-2023, स्थान : हापुड

लालपुर शाखा, गांव- ततारपुर पोस्ट बाबूगढ़, हापुड़ जिला-हापुड़-245101

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिमूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिठत धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों 🖊 गारन्टरों को नूचित किया जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सूचना की तिथि **24.01.2023** बैंक के रेकॉर्ड के अनुसार 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सूचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना प्रकाशित की गई है।

यह सूचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके खाते में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक कं चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग खाते में वसूली हेतु कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से हस्तांतरण के लिए उद्धरण पा सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

आपको यह भी सचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पर्व लिखित स्वीकती वे बिना संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्वाग्रह के जारी

कर रहा ह एवं बक डा.आर.टा. अथवा अन्य किसा न्यायालय म विधिव	१ कायवाहा कर सकता ह ।			
कर्जदार / गारन्टर के नाम एवं पता	बंधक / दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रुपये में)		
श्री दिनेश पुत्र नादरी (उधारकता), प्लॉट नं. 7, खसरा नं. 510मि का हिस्सा, मोहल्ला शांति नगर, दिल्ली रोड, चमरी हापुड़ –245101 श्रीमती मालती पत्नी दिनेश (सह—उधारकता), प्लॉट नं. 7, खसरा नं. 510मि का हिस्सा, मोहल्ला शांति नगर, दिल्ली रोड, चमरी हापुड़ –245101 श्री मोनू चौधरी पुत्र योगेन्द्र सिंह (गारंटर), मकान नं. 336, शिव मंदिर के पास, दिल्ली रोड, चमरी हापुड़–245101 मांग सूचना की तारीख: 24-01-2023 एनपीए की तिथि: 31-03-2021	नं. 510मि का भाग, मोहल्ला शांती नगर, दिल्ली रोड, चमरी, हापुड़ — 245101 में स्थित, क्षेत्रफल 74.16 वर्ग मी., जिला हापुड़ में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्री दिनेश पुत्र	भविष्य का ब्याज साथ में बैंक द्वारा सभी लागत, प्रभार एवं खर्चें इत्यादि सहित		